



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 आश्विन 1932 (श०)

(सं० पटना 710) पटना, शुक्रवार, 15 अक्टूबर 2010

गन्ना उद्योग विभाग

आदेश

17 अगस्त 2010

सं० 1421—हरिनगर सुगर मिल्स लिमिटेड, हरिनगर, पश्चिमी चम्पारण के लिये बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम 1981 की धारा-31 (1) के अंतर्गत ग्रामों का आरक्षण आदेश:—

पेराई सत्र 2010-11 एवं आगे के 4 वर्षों के लिये ईख आपूर्ति हेतु ग्रामों के विभिन्न चीनी मिलों से प्राप्त आरक्षण प्रस्ताव पर सुनवाई सभी चीनी मिलों के प्रतिनिधियों, संबंधित ईख पदाधिकारियों एवं अन्य संबंधितों के समक्ष दिनांक 06 अगस्त 2010 को 11.00 बजे पूर्वा० से की गई। हरिनगर सुगर मिल्स लिमिटेड, हरिनगर, पश्चिमी चम्पारण पूर्व में आरक्षित परम्परागत 281 ग्रामों के अलावा मैनाटांड मुक्त क्षेत्र के 97 ग्राम, धनहां मुक्त क्षेत्र के 31 ग्राम, नरकटियागंज प्रखण्ड के 21 ग्राम, लौरिया का 18 ग्राम एवं गौनाहा का 5 ग्राम तथा सिकटा के 58 ग्रामों को अपने पक्ष में आरक्षित करने का अनुरोध किया गया है।

परम्परागत क्षेत्रों के अलावा मैनाटांड, सिकटा, धनहां एवं नरकटियागंज तथा गौनाहा अंचल के ग्रामों को आरक्षित करने के संबंध में हरिनगर सुगर मिल्स लिमिटेड, हरिनगर पश्चिमी चम्पारण के प्रतिनिधि द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि इनके मिल की पेराई क्षमता 10000 TCD है, जबकि इनके द्वारा 12000 TCD की क्षमता से पेराई की जा रही है। उक्त चीनी मिल का परम्परागत आरक्षित ग्रामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। लौरिया चीनी मिल के परिचालन के उपरान्त उस क्षेत्र से आपूरित होने वाला गन्ना भी चीनी मिल को प्राप्त नहीं हो सकेगा। क्षमता के अनुरूप उक्त चीनी मिल का आरक्षित क्षेत्र अन्य चीनी मिलों की तुलना में अत्यंत ही कम है। अतः उक्त ग्रामों का आरक्षण चीनी मिल के लिये करने का प्रस्ताव समर्पित किये हैं।

हरिनगर सुगर मिल्स लिमिटेड, हरिनगर, पश्चिमी चम्पारण द्वारा समर्पित प्रस्ताव पर मैनाटांड मुक्त क्षेत्र के 97 ग्राम, नरकटियागंज प्रखण्ड के 21, लौरिया के 18 एवं गौनाहा के 5 ग्रामों के प्रस्ताव पर न्यू स्वदेशी सुगर मिल्स द्वारा आपत्ति दर्ज की गई तथा अवगत कराया गया कि 21, 18, एवं 5 ग्राम नरकटियागंज चीनी मिल को परम्परागत रूप में आरक्षित है तथा मैनाटांड के 97 ग्राम उनके आरक्षित क्षेत्र से सटा हुआ है।

हरिनगर सुगर मिल्स लिमिटेड, हरिनगर, पश्चिमी चम्पारण द्वारा समर्पित प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त चीनी मिल की पेराई क्षमता, आवश्यकता, दूरी एवं आवागमन आदि को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त वर्णित तथ्यों के मद्देनजर निम्न आदेश पारित किया जाता है :-

1. पूर्व के परम्परागत आरक्षित 281 ग्रामों को पुनः हरिनगर सुगर मिल्स लिमिटेड, हरिनगर, पश्चिमी चम्पारण के नाम से अगले 5 वर्षों के लिये आरक्षित किया जाता है। आरक्षित ग्रामों की विवरणी परिशिष्ट " क " पर संलग्न है।

2. धनहां क्षेत्र के ठकराहा अंचल के 9, भीतहा अंचल के 15 (कुल 24) ग्रामों को अगले 5 वर्षों के लिये हरिनगर सुगर मिल्स लिमिटेड, हरिनगर, पश्चिमी चम्पारण को आरक्षित किया जाता है, जिसकी सूची परिशिष्ट " ख " पर संलग्न है।

3. सिकटा अंचल के 58 ग्रामों को अगले 5 वर्षों के लिये हरिनगर सुगर मिल्स लिमिटेड, हरिनगर, पश्चिमी चम्पारण को आरक्षित किया जाता है, जिसकी सूची परिशिष्ट " ग " पर संलग्न है।

4. मैनाटांड अंचल के प्रस्तावित 97 ग्राम, नरकटियागंज प्रखण्ड के 21 ग्राम, लौरिया का 18 ग्राम एवं गौनाहां के 5 ग्रामों के लिये आरक्षण संबंधी प्रस्ताव को व्यावहारिक नहीं होने के कारण अस्वीकृत किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जय मंगल सिंह,
ईखायुक्त।

परिशिष्ट- “क”

हरिनगर सुगर मिल्स लिमिटेड, हरिनगर

पेराई वर्ष 2010-11 से 2014-15 के लिए हरिनगर सुगर मिल्स लिमिटेड (प0 चम्पारण) के परम्परागत आरक्षित ग्रामों की सूची :

क्रम संख्या	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	आरक्षित ग्राम का नाम	राजस्व थाना नम्बर
1	2	3	4	5
1	प0चम्पारण	बगहा	वि जुनपुरवा	192
2			मंझरिया	193
3			सिकटी	194
4			पटखौलीया	195
5			भैरोगंज	196
6			रतनपुरवा	197
7			नाराप्रसौनी	198
8			जुड़ा	199
9			सहसराम	200
10			बांसगांव	201
11			मंझरिया	202
12			पकड़ी	203
13			चौतरवा	204
14			इनारबरवा	205
15			नड्डा प्रसौनी	206
16			तेजवलीया	207
17			पाडरखाप	208
18			कोल्हुआ	209
19			गड़हीया	210
20			सिक्टौर	211
21			कोहरगड़डी	212
22			मेहदी	213
23			प्रतापपुर	214
24			रायवारी महुअवा	215
25			मुरली	216
26			जमुनिया	217
27			झारमहुई	218
28			सलहा	219
29			मुड़ीला	220
30			बरीअरवा	221
31			पिपरा	222
32			हरदीनदवा	223
33			झनकौल	224
34			चौतरवा	225
35			कौलापुर कौलाची	226
36			भरवलिया	300
37			चुरिहरवा	301
38			बरिअरवा	302
39			पटखौलिया	305
40			विभानपुरवा	306
41			अहिरौलिया	307
42			लगुनाहा	308
43			खुरुहुरिया	309
44			गयघटी	310
45			गयघटवा	311
46			बसवरिया	321

क्रम संख्या	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	आरक्षित ग्राम का नाम	राजस्व थाना नम्बर
1	2	3	4	5
47			बहुअरवा	322
48			करजनिया	323
		सिधाव		
49			भितहा	101
50			कदमहवा	102
51			चिउटहा	103
52			पिपरा	106
53			बलकहवा	107
54			बैराटी	108
55			बड़गो	109
56			खरहट	110
57			तोनवा	111
58			बरवा	112
59			बेलवा चखनी	113
60			बरिअरवा	114
61			सपही	115
62			महुआ	116
63			त्रिभौनी	117
		रामनगर		
64			बरगजवा	386
65			बैकुण्ठवा	387
66			महुई	388
67			सेमरा	389
68			बड़गो	390
69			सेरहवा	391
70			बहुअरी देवराज	392
71			इनारबरवा	393
72			जोगिया	397
73			पकड़ी	398
74			कौलाची	399
75			मंगुराहा	400
76			मुरलीडीह	401
77			सबेया	402
78			हरदिया	403
79			हरिहरपुर	536
80			सिसवाडीह	537
81			संतपुर	538
82			चमरडीहा बड़गांव	539
83			चुरीहरवा	540
84			गुदगुदी	541
85			केहुनिया	542
86			कुम्हियाकाला	543
87			खटौरा	544
88			खटौरी	545
89			खिरिया	546
90			पकड़ी	547
91			खिरसर	548
92			पलिया	549
93			बेलवा मोकरी	550
94			बेली	551

क्रम संख्या	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	आरक्षित ग्राम का नाम	राजस्व थाना नम्बर
1	2	3	4	5
95			पिपरा	552
96			बड़ा बेलवा	553
97			हरखोलिया	554
98			कुम्हिया खूर्द	555
99			कटहरवा इमीरती	556
100			पथरी	557
101			सेवरही	558
102			डुमरी	559
103			सिंगाही	560
104			बलुआ बखराहा	561
105			बगही	562
106			नौतनवा	563
107			सखुआनी	564
108			गोबरधना	565
109			कोनघुसरी	566
110			मनचंगवा	567
111			घोड़ाघाट खैरहनी	568
112			बैरिया	569
113			बनकटवा	570
114			पोखरिया	571
115			प्रसौनी	572
116			बखरी पचरुखिया	573
117			बकवा चन्द्रौल	574
118			बरवाडीह	575
119			सौनाहा	576
120			झरहरवा	577
121			मेघवल	578
122			हरपुर	579
123			कोनघुसरी	580
124			फुलकोल	581
125			फुलवरिया	582
126			गिद्धा	583
127			मठिया	584
128			खजुरिया	585
129			मटियरियाखूर्द	586
130			मटियरिया काला	587
131			बिरकहनी	588
132			मधुबनी	589
133			चुरीहरवा	590
134			फगुनहटा	591
135			जबका	592
136			सम्हौता	593
137			जमुनिया	594
138			भौलेहर	595
139			पिपरा माफी	596
140			भावल पीपरा	597
141			धनरपा	598
142			रतनपुरवा	599
143			रामनगर	600
144			सबुनी	601

क्रम संख्या	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	आरक्षित ग्राम का नाम	राजस्व थाना नम्बर
1	2	3	4	5
145			बेला	602
146			कुड़िया	603
147			फुलवरिया	604
148			पिपरा रायबारी	605
149			मुंडेरा	606
150			बेलवा	607
151			सिकटा	608
152			डैनमरवा	609
153			विभुनपुरवा	610
154			पकड़ी	611
155			चरघरवा	612
156			नौगांवा	613
157			एराजी पिपरा	614
158			पिपरा	615
159			घोकराहा	616
160			पचरुखिया	617
161			बहुअरी	618
162			नारायणापुर	619
163			मुडिला	620
164			ब्रवा बंजरिया	621
165			छंगुरही बंजरिया	622
166			सपही	623
167			सरहटवा	624
168			कटसिकरी	625
169			चिकनी बंजरिया	626
170			गौनरा	627
171			धोबिनी चौतरवा	628
172			गोन्द्री	629
173			दुबौलिया	630
174			सोहसा	631
175			लखनखोर	632
176			छौघरिया	633
177			सेमरी	634
178			िावपुरवा	635
179			कोट बंजरिया	636
180			सोनखर	637
181			बरवा	638
182			चैनपुर	639
183			पुरन्दापुर	640
184			बड़गो	641
185			मुजरा	642
186			सिलवटिया	643
187			बभनौली	644
188			भोखपुरवा	645
189			सिगरी	646
190			घोडपकड़ी	647
191			बेलौरा	648
192			झरहरवा	649
193			बिगरी	661
194			तौलाहा	662

क्रम संख्या	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	आरक्षित ग्राम का नाम	राजस्व थाना नम्बर
1	2	3	4	5
195			महे 1पुर	663
196			दिउलिया	664
197			बभनी	665
198			गरदी	511
199			नौरंगीया	512
200			मजुरांहा	513
201			बैरिया काला	514
202			बरवाडीह	515
203			गोबरहिया	516
204			झझरी	517
205			धायर	518
206			बेतहनिया	519
207			भुलभुलैया	520
208			बेलाटारी	521
209			पिपरा	522
210			रूपवलिया	523
211			बनकटवा	524
212			करमाहा	525
213			धोबहा	526
214			सेरहवा	527
215			ढोकनी	528
216			नरकटिया	529
217			कटाहां	530
218			बनराहा	531
219			रधिया	532
220			सीतलबारी	533
221			बनबारी	534
222			डमरापुर	535
		नरकटियागंज		
223			रामपुर	366
224			सेरहवा	374
225			डकहवा	375
226			धनकुटवा	376
227			तकिया	377
228			डुमरिया	378
229			खरकटवा	379
230			मुरली	381
231			सकरौल	382
232			लेदीहरवा	383
233			तितुहिया	384
234			मधुबनी	385
235			रमौली	659
236			लंगड़ा	660
237			चमुआ	667
		लौरिया		
238			इनारब्रवा लिटिहा	394
239			तेलपुर	395
240			डुमरा	396
241			देउरवा	404
242			पंडापट्टी	405

क्रम संख्या	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	आरक्षित ग्राम का नाम	राजस्व थाना नम्बर
1	2	3	4	5
243			प्रसौनाडीह	406
244			सीतापुर	407
		गौनाहा		
245			परसा बनहवा	1
246			महुअवा	2
247			हस्तीबैरिया	3
248			सोनबरसा	4
249			मटिअरिया	5
250			महुई	6
251			बैरिया	7
252			बेलवा	8
253			गुजरा मोतिहारी	9
254			जमुनिया	10
255			तुरकौलिया	11
256			लछनौता	12
257			भाहजहाँपुर	13
258			बैगरा	14
259			परसा	15
260			हरदी	36
261			धर्मपुर	37
262			मेहनौलकाला	38
263			इटवा	39
264			चिउटौहा	40
265			भुस्की	41
266			डडरौल	42
267			मेहनौल	43
268			सेरवा	46
269			एकडेरवा	650
270			चरिहानी	651
		गौनाहा		
271			सेरहवा	16
272			मस्जिदवा	17
273			सिरीसिया	18
274			खुरहुरिया	31
275			बड़हरवा	32
276			पकड़ी खुर्द	33
277			हौदा	44
278			डूमरा	45
279			लक्ष्मीपुर	47
280			अहरार	48
281			पिपरा	49
			कुल गाँव	281 गाँव
				(परम्परागत)

परिशिष्ट- “ख”

हरिनगर सुगर मिल्स लिमिटेड, हरिनगर

पेराई वर्ष 2010-11 से 2014-15 के लिए हरिनगर सुगर मिल्स लिमिटेड (प0 चम्पारण) के परम्परागत आरक्षित ग्रामों की सूची :

(प0 चम्पारण) धनहॉ क्षेत्र के 24 ग्रामों की सूची :

क्रम संख्या	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	आरक्षित ग्राम का नाम	राजस्व थाना नम्बर
1	2	3	4	5
1	प0चम्पारण	भितहां	खैरवाटोला	272
2			परसौनी	274
3			पकड़ी	275
4			सेमरबारी	276
5			पकड़ी	398
6			चरमहा	399
7			कउआर	400
8			झकबनही	407
9			सनेरूया	409
10			बैरिया	410
11			बड़हरा	411
12			मोराडीह	412
13			चिलबनिया	413
14			भितहां	414
15			चन्दरपुर	415
		ठकराहॉ		
16			टोलाडीह पकड़ी	416
17			मछहा अलिआस दुबहा	417
18			भुईधरवा	418
19			चिरचिरवा	419
20			सोनबरसा	420
21			लेदिहरवा	421
22			मदरही	422
23			पुरैना	423
24			विश्रामपुर	424

परिशिष्ट- "ग"

हरिनगर सुगर मिल्स लिमिटेड, हरिनगर प0 चम्पारण

पेराई वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक के लिए हरिनगर सुगर मिल्स लिमिटेड, (प0 चम्पारण) के
सिकटा प्रखंड के 58 परम्परागत गाँवों की सूची

क्र०सं०	गांव का नाम	थाना नं०
1	जगरनाथ	277
2	पटखौली	294
3	मैनपुर	295
4	सिसवनिया	296
5	लटीआही	297
6	सरगटिया	299
7	नोनिया टोला	300
8	बहुअरवा	301
9	बैसखवा	302
10	झखरा	303
11	नरकटिया	304
12	अवसानपुर	305
13	पटुकहिया	306
14	गौचरी	307
15	धनकुटवा	308
16	गौरीपुर	309
17	परसौनी मुरली	310
18	परसौनी घोघा	311
19	बलधर	312
20	बेहड़ा	313
21	मुजौना	314
22	महमुदवा	315
23	टोला दुलरिया	316
24	पिड़ारी मंगलपुर	317
25	बेहरी बनकटवा	318
26	सिरिसिया	319
27	लाईन परसा	320
28	कंसी बरवा	321
29	जयसिंहपुर	322
30	शिकारपुर	323
31	भवरा	324
32	भौरी	325

क्र०सं०	गांव का नाम	थाना नं०
33	खाप परसा	326
34	परसा	327
35	मसवास	328
36	सूरजपुर	329
37	हरिपुर	330
38	परसोतिमपुर	331
39	पोखरिया	332
40	परभुरामपुर	333
41	मठिया	334
42	कंगली	335
43	सेनुअरिया	336
44	बसंतपुर	337
45	भेड़िहरवा	338
46	सबैटवा	339
47	बहुअरवा	340
48	इनरवा	341
49	बिभुनपुरवा	342
50	मसवास	343
51	भवानीपुर	344
52	मंझरिया	345
53	टोला मंझरिया	346
54	सुगहा	347
55	छपरिया	348
56	गम्हरिया जयनगर	349
57	गम्हरिया वीरनगर	350
58	भवानीपुर मंझरिया	394

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
जय मंगल सिंह,
ईखायुक्त ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 710-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>